

April 23, 2021

**BSE Limited**Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051

#### Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for Postal Ballot

Dear Sirs,

In continuation of our letter dated April 22, 2021 we enclose copies of the advertisements published on April 23, 2021, in Mint (All editions-English) and Hindustan (Hindi), with respect to completion of despatch of notices of Postal Ballot.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jubilant Ingrevia Limited

Deepanjali Gulati Company Secretary

Encl: as above

A Jubilant Bhartia Company



Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223 Uttar Pradesh, India CIN: L24299UP2019PLC122657



## to drive integrated **EaaS offering**

Kalpana Pathak kalpana.p@livemint.com MUMBAI

British energy major, BP, and Indian information technology (IT) major Infosys have signed a memorandum of understanding (MoU) to work together to developan integrated Energy-asa-Service (EasaS) offering that will provide end-to-end management of customers' energy assets and services, the companies said on Thursday. "Together, the companies

"Together, the companies using BP-senergy and mobility expertise and Infosys" digital capabilities to namage energy assets, provide low carbon power, low carbon heating/cooling, and low carbon mobility to campuses, driven by an artificial intelligence-based digital platform, the companies said.

The integrated The firm Together, the companie

The integrated EaaS solution aims to enable Infosycampuses to access reliable low carbon energy and mobility options, use energy more efficiently, and optimize supply and demand across multiple users and assets without having to invest in additional energy infrastructure. This follows a pilot at the Pune campus of Infosys. The companies now intend The integrated aaS solution ims to enable offosys campuses

The firms plan to explore opportunities to manage opportunities to manage energy assets and cut campuses, cities

The companies now intend extend the offer to other to extend the offer to other Infosys campuses and explore opportunities to manage energy assets and reduce emis-sions at industrial and business parks as well as cities. "Digitization will act as a driver for decarbonization and building work and living spaces of the future. With the present



advancement in technology provide positive impulse:

provide positive impulses, transparency, control, and enhanced decision-making." said Pravin Rao, chief operating officer, Infosys.
Infosys says it a chieved carbon neutrality in 2020, about 30 years ahead of the timeline set by the Paris Agreement. BP aims to become a net-zero company by 2050
Splant to or sooner.

or sooner. Together the two companies see potential in applying digital services to integrated energy solutions and help decar-bonize corpora-tions and cities,

they said. "Integrated energy and mobility solutions have huge potential to enable clean cities oowered by low carbon energ and digital platforms are a vital and digital platforms are avital component. Through this strategic collaboration we can combine our capabilities to manage energy for Infosys in India, and in time take this offer to other campuses, industrial parks, and cities, to help the world decarbonize faster," said Sashi Mukundan, president, BP India and senior vice president BP groun.

## BP, Infosys ink pact Rising caseload poses biggest threat to India rebound: MPC

RBI Guv said the surge in cases and its impact on economic activity needs to be monitored

ising covid-19 cases consti-tute the single biggest chal-lenge to economic recovery, the Reserve Bank of India governor Shaktikanta Das told the monetary policy committee ear-lier this month, according to the minutes released on Thursday

Compared with the policy statement, the minutes read gloomy: Das said the

Compared with the policy statement, the minutes read gloomy. Das said the recent jump in cases and its impact on economic activity needs to be carefully monitored.

"The need of the hour is to effectively secure the economic recovery underways othat it becomes broad-based and durable. The renewed jump in coronavirus infections in several parts of the country and the associated localized and regional lockdowns add uncertainty to the overall growth outlook." Das said. Contrast this with the policy statement earlier this month, when the central bank said: "The renewed jump in covid-19 infections in certain parts of the country and the associated localized lockdowns could dampen the demand for contact-intensive services, restrain growth impulses and prolong the return to normalcy. In such an environment, continued policy support remains necessary."

RBI executive director and MPC

ment, continued policy support remains necessary."

RBI executive director and MPC member Mridul Saggar, too, raised his pitch on the risks to economic recovery if the new wave of infec-

recovery a time new wave of infec-tions is not flattened soon.

He added that health policies hold the key to India's recovery as mon-etary and fiscal policies have already used most of the space through stimulus measures.

measures.
"Learning effects on calibrating stringency of restrictions may keep economic costs of the second wave much



ay so it becomes broad-based, said RBI governor Shaktikanta Das.

normalization by a quarter or two.
Ramping up vaccination, testing and
treatment hold the key to protecting
economic recovery and health policies
have become the first line of defence.

Monetary and fiscal policies can only play a second fiddle, "Saggar added in the MPC minutes. RBI deputy governor and MPC mem-ber Michael Patra, who is usually the most hawkish amongal members, how-ever, softened his stance. He said the

RBI'S Mridul Saggar said health policies hold key to recovery as fiscal policies have used most of space

"I would continue to look through the recent elevation in inflation and remain focused on reviving the economy on a path of strong and sustainable growth. An integral part of this approach would

MPC member Jayant Verma said challenges need a time-based forward guidance amid uncertainties RBI dy guv Michael Patra, who is usually the most hawkish among all members, softened his stance

be to insulate domestic financial mar-lets from global spillovers and volatility so that congenial financial conditions continue to support growth," he added. MPC member Jayant Verma said the challenges need time-based forward guidance amid the uncertainties and

evolving economic state.

Since October the MPC has maintained an accommodative stance "during the current financial year and into the next financial year", which is reflective of a time-based forward guidance.

"Tthink it is not prudent to repose excessive faith in forceasts. Instead, the MPC must have the agility and flexibility to respond rapidly and adequately to whatever surprises me data may brings in the future.

Time-based guidance is inconsistent with this imperative," Verma said.

said.
"Inflation rates have been consistently well above the mid point of the target zone and is forecast to remain elevated for some time. This is a difficult situation, but I believe that the balance of risk and reward is in favour of monetary accommodation," he added.

#### **ESG funds** gain pace on focus shift to sustainability

Nasrin Sultana nasrin.s@livemint.com

nvestors rushed to park money into environmental, social and governance (ESG)-focused funds as the dis-ruption caused by the covid-19 pandemic highlighted the need to build sustainable and resti-tent business models. Data provided by Morning-star India, an independent research site, showed that Indian ESG funds received a net inflow of Y103.78 crore in March following an outflow of

March following an outflow of

net inflow of 103.78 crore in March following an outflow of 102.78 crore combined in Jauvay and February. In the previous quarter ending December, these funds received net inflow of 13.748.96 crore. Kaustubh Belapurkar, director-manager research, Morningstar India said, "The crisis has only accelerated the demand for sustainable investing. While still early days in India from an ESG funds perspective, the launch of ESG funds has increased investor awareness significantly. Many domestic asset domestic managers are already incorporating ESG principles in their overall investing framework."

After the outbreak of covid last year, severalnew ESG dedicated funds were launched, especially in the escond half of the year. Some of these are defensed in the sear of the present of these are defensed in the sear of the present of t

especially in the second half of the year. Some of these are Aditya Birla Sun Life, ICICI Prudental, Rodak ESG Oppor-tunities, Quant ESG Equity, two funds by Mirce AMC and Invesco India ESG Equity. In total, India seven of India 5 IO ESG funds werelaunched post June 2020. Assets in global sustainable funds hita record high of \$16.52 billion in December quarter, up 29% from the previous quarter.

#### Centre on overdrive to keep power supply on

Queries emailed to spokes people for power ministry, NTPC, NHPC and Power Grid Corp. were not immediately

Corp. were not immediately answered.

"The plan is to limit the number of infections among the power sector professionals. The situation is presently under control, and we don't want the number of cases to spiral.' said the second official cited above, who also idd not want to be named.

India has a complex interaction connected power grid requiring close coordination between grid operators and power priget generators across coal, gas, hydro, nuclear and green energy sources run by the Centre, states and the private sector. It is state-owned Power System Operation Corp. Lid System Operation Corp. Ltd (Posoco), which manages these (Posco), which manages these complex functions through the National Load Despatch Centre (NLDC). Regional Load Dispatch Centres (RLDCs) and State Load Despatch Centres (SLDCs)—often drawing comparisons with an air traffic controller. The country has 33 SLDCs, five RLDcs, for the five regional grids that form the national grid) and one NLDC. India's peak electricity

India's peak electricity demand fell during the first demand fell during the first wave, with commercial and industrial demand taking a hit after many factories closed. However, domestic consumption, which generates comparatively lower tariffs, went up. With the revival of economic activity, the demands incerhen has gone up, with the country registering a record high of 189.6GW in January. The demand is expected to get impacted given the lockdowns imposed by the states.

imposed by the states.

Of India's total electricity
demand load pattern, industrial and agricultural consumption account for 41.16% and
7.69%, respectively. Commercial electricity consumption
accounts for 8.24%.



#### Jubilant Ingrevia Limited

(CIN: L24299UP2019PLC122657)

Registered Office: Bharliagram, Gajraula,
District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India E-mail: investors.ingrevia@jubl.com; Website: www.jubilantingrevia.com Phone: +91-5924-267200

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies

Act, 2013, (the 'Act)' read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and
MCA Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular Nos. 17/2020 dated April
8, 2020, 22920 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 and 38/2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA Circulars') and Regulation

4d of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements).

Regulations, 2015 (the Using Regulations') and other applicable provisions of the Act and the Listing

Regulations, 2015 (the Using Regulations') and other applicable provisions of the Act and the Listing

Regulations, circulars and notifications issued thereunder (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Company has sent E-mail alongwith the Postal

Bailot notice dated April 17, 2021 through National Securities Depository Limited (NSDL) on April

22, 2021, and the Login ID and password to the Members for e-voting who have registered their

E-mail IDs with the Depository Participants or with the Company, for seeking:

1. Approval for Jubilant Ingravia Employees Stock Option Plan 2021 for employees of the Company,

2. Approval of Jubilant Ingravia Employees Stock Option Plan 2021 for employees of the Subsidiary

companies of the Company, 10 the furst.

In Board of Directors of the Company has appointed Mr. Devesh Kurnar Vasisht (FCS No. 8488, CP

Members shall be able to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is serumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. Members are requested to note that e-voting shall commence from Fridgy, April 23, Dailot Notice, wellness are requested to hole that evoluting shall collimete from Philady, April 25, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Saturday, May 22, 2021, at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

In accordance with line above mentioned MCA Circulars, physical copies of the Postal Bailot Notice along with Postal Bailot forms and prepaid business Reply Envelope are not being sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only

the remote e-voting system only. The voting rights of Members shall be reckoned as on April 16, 2021, which is the Cut-off date. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.jblelantingevia.com, websites of the Stock Exchanges is BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> mespectively and on the website of NSDL at <a href="https://www.wsw.usbi.ng.ndia.com">https://www.wsw.usbi.ng.ndia.com</a> (Nembers who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned websites.

Members, who are holding shares in physical/ electronic form and whose e-mail addresses are no Members, who are holding shares in physical/ electronic form and whose e-mail addresses are not registered with the Company! their respective Depository Participants, are requested to register their E-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a letter duly signed by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz. Asidhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Cowenment document in support of the address proof of the Member(s) as registered with the Company for receiving the Postal Ballot Notice by email to <u>investors ingrevia@iu.loc.com</u> of <u>14@alankt.com</u>. Members holding shares in demait form can update their email address with their Depository Participants.

ther Depository Participants.

In case of any queries or grievances relating to e-voting, you may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Murmbai. -400013, India through e-mail at gening £816, 2to in or not Flor Fee No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 0F Mr. JK. Singla, Senior Manager, Ms. Alankit Assignments Limited, 255-208, Anartial Complex, Janadewalan Extension, New Delhi 110055, India through email at 168 Balankit.com or on Telephone No. 161-491-11-23541234 or 42541234.

The result of the Postal Ballet by e-voting will be amounced on Monday, May 24, 2021 at 5:00 p.m. (IST) at the Corporate Office at 1A, Sector 16A, Noida-201301, Ultar Pradesh, India. The results along with the Scridinizer's Report will be displayed at the Registered Office and the Corporate Office of the Company.

Deepanjali Gulati Company Secretary FCS No: 5304



THEME: "INDIAN B SCHOOLS: NAVIGATING A SUSTAINABLE FUTURE BY MERGING LOCAL & GLOBAL BEST PRACTICES"

#### Chief Guest





Dr. Anil Sahasrabudhe





























Registration link: https://epsiindia.org/registration















क्यूंकि सच्ची सहेली में हैं 🚮 खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जो मुश्किल तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे।



67) दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना 'सच्ची <mark>सहेली' आयुर्वेदिक टॉनिक एवं टेबलेट्स</mark>

चिड़चिड़ापन

कमर कटना



# मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर निम्मेदार अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए **सरकारी अस्पताल ३० फीसदी बेड** पर मरीजों की भर्ती खुद कर सकेंगे

#### कोरोना से लड़ाई

लखनऊ | विशेष संवाददात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण का काम किया जाना है। सभी जिलों के अधिकारी इस संबंध में आवश्यक तैयारियां समय से पुरी कर लें। अनावश्यक भय का माहौल बनाने वालों, अफवाह फैलाने वालों, जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम को मंडलायुक्त,अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी, आईजी, पुलिस कप्तान,सीएमओ व नगर आयुक्त आदि के साथ वर्चुअली बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड टीका ले चके लोगों में संक्रमण का असर हल्का है। अतः यह जरूरी है कि अधिकाधिक लोगों का

🝊 राज्य सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति बढाने के सभी प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए। योगी आदित्यनाथ

कोविड टीकाकरण हो।

सीएम ने कहा कि दवाओं का कोई अभाव नहीं है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं। संक्रमण को न्यनतम रखने के लिए होम क्वारंटीन व होम आइसोलेशन की इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करना आवश्यक है।

8 जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए: मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ.

जल्द प्रदेश को मिल जाएंगे, इंजेक्शन की कमी दूर होगी

को लखनऊ के कोविड उपचार के लिए टेकओवर किया गया

गतिविधियां संचालित होती रहें।

ऑक्सीजन की सगम आपर्ति के लिए

सभी जिलाधिकारी इस संबंध में लगातार

स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और खाद्य

सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से

संपर्क में रहें। किसी भी जिले में

ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी

बनाया जाएः मुख्यमंत्री ने कहा कि

कल से कोरोना कपर्यू को प्रभावी

## सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या दुगनी की जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी की जाए। लंखनऊ के केजीएमय डेडिकेटेड हॉस्पिटल में नोडल अधिकारी कैंप करें। एरा, इटीग्रल, टीएस मिश्रा, हिन्द, मेयो, प्रसाद व सक्सेना निजी मेडिकल कॉलेजों को राज्य सरकार ने कोविड उपचार के लिए टेकओवर किया है। यहां बेड की संख्या में लगातार इजाफा करने की जरूरत है। टेस्टिंग में क्वालिटी कंटोल का ध्यान अवश्य रखा जाए।

गोरखपुर, झांसी, बरेली, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर जिलों में पॉजिटिविटी दर अधिक है। यहां प्रवासी श्रमिकों का भी आगमन हो रहा है। इसलिए यहां विशेष सतर्कता की जरूरत है। संबंधित मंडलायुक्त इसकी मॉनिटरिंग करते रहें।

गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर सहित सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी जगह औद्योगिक

आक्सीजन प्लांट लगाने वाले संचालकों

का निजी चिकित्सा संस्थानों से अनुबंध

आक्सीजन प्लांट लगाने के प्रस्तावों को

आगे बढाया जाएगा। कोरोना के कारण

साप्ताहिक बंदी व रात्रि कपर्यू के बावजूद

उद्योगों के संचालन में कोई असुविधा

नहीं होने दी जाएगी। सभी औद्योगिक

एमसएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंहने

उद्यमियों को यह भरोसा दिया है साथ ही

आक्सीजन की आपूर्ति के लिए सहयोग

मांगा है। इस मुद्दे पर प्रमुख इंडस्ट्री

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से इन

मंत्रियों से बात की।

विकास मंत्री सतीश महाना व

कराने में सहयोग करेगी। साथ ही

## ऑक्सीजन टैंकरों पर रखी जाएगी जीपीएस से निगरानी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन रीफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाए। ऑक्सीजन टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाए तथा प्लांट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। हर ऑक्सीजन टैंकर के साथ सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएं।

शक्रवार रात्रि ०८ बजे से सोमवार प्रातः 07 बजे तक के कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए। इस अवधि में व्यापक स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्यवाही हो। दैनिक कोरोना कर्प्य को सख्ती से लागू किया जाए। इस अवधि में औद्योगिक इकाइयां संचालित होती रहें। हम हर प्रदेशवासी की जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित करने के लिए संकल्पित हैं।

लखनऊ विशेष संवाददाता

प्रदेश के राजकीय अस्पताल, सरकारी व निजी मेडिकल कालेज भी अपने 30 फीसदी बेड पर मरीजों की भर्ती इमरजेंसी की स्थिति में खुद कर सकेंगे। इनके बाकी 70 प्रतिशत बेड पर मरीजों की भर्ती इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के जरिये की जाएगी।

इन अस्पतालों को रोजाना सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक उस दिन खाली हुए बेड की संख्या श्रेणीवार अस्पताल के बाहर विज्ञापित करनी होगी और कमांड सेंटर के पोर्टल पर भी उपलब्ध करवानी होगी। कमांड सेंटर के माध्यम से प्रशासन द्वारा जारी किये गये एडिमशन स्लिप को सम्बंधित अस्पताल के लिए मानना बाध्यकारी होगा। इसका उल्लंघन महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। कमांड सेंटर से मरीजों को पहले की ही तरह फोन काल की जाएगी और उनके स्वास्थ्य का मल्यांकन भी किया जाएगा।

## होम आइसोलेशन में मिलती रहेगी सलाह

होम आइसोलेशन के योग्य मरीजों को घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ करने की सलाह दी जाएगी। जिन मरीजों की स्थिति भर्ती करने योग्य होगी उन्हें यह बता दिया जाएगा कि अगर वे निजी

कोविड अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड सेंटर के किसी संदर्भ की जरूरत नहीं होगी और वह स्वयं इन अस्पतालों में सम्पर्क कर भर्ती हो सकते हैं।

## निःशुल्क उपचार के अनुरोध की नयी व्यवस्था

जिन मरीजों द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा का अनुरोध किया जाएगा उनकी अस्पताल में भर्ती की कार्यवाही कमाण्ड सेण्टर के जरिये की जाएगी। भर्ती के लिए कमाण्ड सेण्टर के डाक्टरों द्वारा मरीज के लक्षणों की जानकारी प्राप्त करके उसकी गम्भीरता का आंकलन करते हुए एल वन, एल टू या एल थ्री के अस्पताल का निश्चय किया जाएगा और उसी के अनुसार अस्पताल का आवंटन किया जाएगा

#### एम्बुलेस की सुविधा

जिन मरीजों की भर्ती कोविड कमाण्ड सेण्टर के जरिये की जाएगी उन्हें अनिवार्य रूप से एम्बलेंस की सविधा भी उपलब्ध करवायी जाएगी। निजी अस्पतालां में जाने वाले मरीज अपनी व्यवस्था से अस्पताल जाने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन अगर किसी मरीज द्वारा इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर से एम्बुलेंस की मांग की जाती है तो सम्बंधित निजी अस्पताल में भर्ती करने के पत्र केआधार पर एम्बलेंस तत्काल उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके लिए एक डेडीकेटेड व्हाटसअप नम्बर भी रखा जाएगा।

## 31 अस्पतालों में एयर सेपरेटर लगाए जाएंगे

में शिक्षक घर से लेंगे कक्षाएं

लखनऊ | **विशेष संवाददाता** 

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कुल मिलाकर 31 अस्पतालों में एयर सैपरेटर लगाने के निर्देश जारी किये जा चुके है। वह अगले 10-15 दिन के मध्य में 31 अस्पतालों में उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

प्रदेश में एयर सैपरेटर स्थापित हो जाने से प्रदेश के बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होगी। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आवंटित किये गये है। विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा रहे है। इन कंसंटेटर को एक-एक मरीज को लगाया जायेगा जिससे मरीज को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां थी, वह औद्योगिक

लखनऊ | **विशेष संवाददाता** 

माध्यमिक शिक्षा के स्कुलों में भी जल्द

ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी।

कार्यवाहक अपर मुख्य सचिव अनिल

कुमार ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों

को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं। इस

दौरान शिक्षकों को स्कूल नहीं आना

व्हाट्सएप के माध्यम से पठन-पाठन शरू करवाया जाए। मण्डलीय शिक्षा

निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों

को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का

निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी

डीआईओएस व सभी स्कूलों के

प्रधानाचार्यों का एक व्हाट्सएप ग्रुप

बनाया जाए। सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों

का कक्षावार व विषयवार ग्रुप बनाया

जाए। इसके अलावा स्वयंप्रभा चैनल,

ई ज्ञानगंगा व अन्य माध्यम से व्यवस्था

सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा

उन्होंने कहा है कि ई लर्निंग व

## चौबीस घण्टों में १६,५२४ लोग टीक होकर डिस्चार्ज

अपर मुख्य सचिव ने नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में गुरूवार को कुल १६,५१४ मरीज कोविंड–१९ संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए है। यह अत्यंत सुखद है प्रदेशवासी धैर्य बनाकर रखे। प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सविधाएं तथा जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी

उपयोग के लिए ऑक्सीजन बना रही थी। उनको भी अब चिकित्सीय प्रयोग के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दे दी गयी है। निजी अस्पतालों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि स्वयं अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा ले जिससे बाहर से अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो। इसके लिए एक विशेष योजना बनायी जा रही है।

#### वायरस पर वार

#### निजी अस्पतालों से अनुबंध मेडिकल कॉलेजों की कोविड में सहयोग करेगी सरकार लैबों के लिए ७९ करोड़ जारी

राज्य सरकार ने प्रदेश के 24 राजकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए कोविड अस्पतालों व जांच लैबों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से 79.88 करोड़ रुपये दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में गुरुवार की शासनादेश जारी कर दियाँ है। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के बाद खर्च किया जाएगा। इस पैसे को कोविड-19 लैब की व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा। इसके इतर इस पैसे को नहीं खर्च किया जाएगा।

#### लखनऊ में पांच पीसीएस अफसर और लगाए गए

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन से पांच पीसीएस अफसरों को संबद्घ किया है। जिलाधिकारी रोशन जैकब इन अफसरों को कोरोना संक्रमणकाल से निपटने में लगाएंगी। राजस्व परिषद में तैनात पीसीएस अधिकारी महेंद्र मिश्रा व अशोक शुक्ला और खेलकूद विभाग में अपर निदेशक भरत राम को लखनऊ जिला प्रशासन से संबद्घ किया गया है। यूपीडा में ओएसडी दिनेश चंद व आनंद मोहन उपाध्याय को भी जिला प्रशासन लखनक से संबद्ध किया गया है। अगले आदेश तक कोविड संक्रमण रोकथाम से जुड़े कार्यों में सहयोग करेंगे।

## यूपी के कोटे से दिल्ली को मिली ऑक्सीजनः सिद्धार्थ

लखनऊ | **प्रमुख संवाददाता** 

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वह वास्तविकता से परे है। वह बच्चों की तरह रो रहे हैं और दादागिरी भी कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को उनके निर्धारित कोटे का आक्सीजन दे रही है। उत्तर प्रदेश से आक्सीजन का कोटा कम करके दिल्ली को दिया गया है।मोदीनगर नगर में

*|UBILANT* 

INGREVIA

आइक्नाक्स के प्लांट से 149 मीटिक टन आक्सीजन उत्तर प्रदेश में सप्लाई होती थी, उत्तर प्रदेश के लिए यह कोटा घटकर 80 एमटी हो गया है। यूपी के कोटे का शेष आक्सीजन दिल्ली को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इंडिया ग्लाईकाल का 40 एमटी आक्सीजन का पुरा आक्सीजन दिल्ली को दिया जा रहा है। रूड़की के 40 एमटी का 25 एमटी आक्सीजन दिल्ली को दिया जा रहा है। पानीपत का पुरा आक्सीजन दिल्ली को दिया जा रहा है।🛮

## संकट से भाजपा सरकार के हाथ-पांव फूल गए **लखनऊ**ं ां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजप सरकार के कोरोना संकट के चलते हाथ पांव फुले हुए है। मुख्यमंत्री किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए हैं और सरकार अनिर्णय व जड़ता की शिकार हो चर्ल है।आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है राज्य का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान सरकारी उपेक्षा का शिकार बनाया ज रहा है।अखिलेश ने गुरुवार को जार्र एक बयान में कहा कि कोरोना संकट के बहाने भाजपा सरकार ने किसानों से गेहं की खरीद बंद कर दिया है।

## ३४९ क्वारंटीन सेंटरों पर सीएम की निगाह

नया व्यवस्था

## **माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों** गेहूं खरीद की

राज्य मुख्यालय। प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद की नयी व्यवस्था लागू की है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यनतम समर्थन मुल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है।

## तीन आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार

उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को वर्क **राज्य मुख्यालय।** प्रदेश सरकार ने एस.एस.एफ.लखनऊ के सेनानायक फ्राम होम के तहत ऑनलाइन पठन-आशीष तिवारी को उन्नाव के अपर पाठन के लिए कहा जाए। स्कूलों में ऐसी पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था हो कि ऑनलाइन कक्षाओं का सौंपा है। इसी क्रम में सतर्कता अधिष्ठान संचालन अध्यापक अपने घर से ही करें। लखनऊ के पुलिस अधीक्षक कुंवर केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही न्यूनतम संख्या में अध्यापकों को अनुपम सिंह को कासगंज के पुलिस स्कूल बुलाया जा सकता है। यह आदेश अधीक्षक, सेनानायक सुश्री सुधा सिंह सभी स्कूलों पर लागू होगा। को सोनभद्र के एएसपी बनाया गया है।

अनिवार्य करने तथा सूबे के 72 जिलों में बने 349 क्वारंटाइन सेंटरों की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री रोज देखें रहें हैं। इसी के साथ अब मुख्यमंत्री ने कोविड–19 के इलाज में पूरी क्षमता से कार्य ना कर पाने के चलते मेडिकल कॉलेज के प्रशासन अराजक तत्वों पर रखी

कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य के कोविड अस्पतालों और

मेडिकल कॉलेजों के कामकाज पर योगी आदित्यनाथ खुद निगाह रखे हुए हैं।

कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के संबंध में चिकित्सीय प्रबंधों की

समीक्षा करने लगे हैं।यही नहीं राज्यों से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग

## जाए कड़ी नजरः आयोग



लखनऊ | विशेष संवाददाता

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने आगामी 26 अप्रैल को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के होने वाले मतदान से सम्बंधित जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर कड़ी नजर रख कर मतदान करवाया जाए। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार ऐसी सख्त कार्रवाई हो ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए।

गुरूवार को राज्य के इन 20 जिलों के पुलस व प्रशासन के अफसरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये मतदान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चत करवाया जाए कि मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो।

इन जिलों में होना है मतदान: 26 अप्रैल को अमेठी, उन्नाव, औरय्या, कानपुर देहात, कासगंज, चन्दौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान होना है।इन जिलों 748 जिला पंचायत सदस्यों. 18530 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 14379 ग्राम प्रधान और 180473 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान करवाया जाएगा।

## भाजपा हेल्पलाइन पर

लखनऊः । प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर गुरुवार से शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर पर पहले ही दिन करीब 1500 फोन आए। फोन करने वालों ने सबसे अधिक आक्सीजन दिलाने या किसी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने की गुजारिश की। रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबी फ्लू टैबलेट की मांग भी लोगों ने की। मदद के लिए आए इन फोन कॉल्स में से कुछ को मदद पहुंचाई भी गई, लेकिन लखनऊ तथा अन्य बड़े शहरों में भर्ती कराने की गुजारिश करने वाले अधिकांश लोगों को दिलासा से ही संतोष करना पडा। हेल्पलाइन पर आने वाले फोन काल्स को अटेंड करने के लिए भाजपा पदाधिकारियों की पूरी टीम लगाई गई है। किस तरह की मदद चाहिए यह जानने के बाद फोन करने

जिला अमरोहा-244 223, उत्तर प्रदेश, भारत ई-मेलः investors.ingrevia@jubl.com, वेबसाइटः www.jubilantingrevia.com फोनः +91-5924-267200

पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला

जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड

(सीआईएन: L24299UP2019PLC122657)

### पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 व धारा 110 ('अधिनियम') साथ में पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक अप्रैल 8, 2020 साथ में पठित सामान्य परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक अप्रैल13, 2020, 22/2020 दिनांक जून 15, 2020, 33/2020 दिनांक सितम्बर 28, 2020 और 39/2020 दिनांक दिसम्बर 31, 2020 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 ('सूचीयन विनियमों') और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और इसके अधीन जारी सूचीयन विनियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के समय को फिर से लागू करने सहित) के अनुसरण में, कम्पनी ने निम्नलिखित का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अप्रैल 22, 2021 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना दिनांक अप्रैल 17, 2021 के साथ ई-मेल और ई-वोटिंग हेतु उन सदस्यों, जिन्होंने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास या कम्पनी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकत किए हए हैं, को लॉगइन आईडी

1. कम्पनी के कर्मचारियों के लिए जुबिलेंट इनग्रेविया इम्प्लाईज स्टॉक ऑप्शन प्लान 2021 हेतु अनुमोदन, 2. कम्पनी की सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए जुबिलेंट इनग्रेविया इम्प्लाईज स्टॉक ऑप्शन प्लान 2021 का अनुमोदन, 3. न्यास के माध्यम से जुबिलेंट इनग्रेविया इम्प्लाईज स्टॉक ऑप्शन प्लान 2021 का कार्यान्वयन, 4. सैकेण्डरी अधिग्रहण हेतु न्यास को अधिकार-पत्र, 5. न्यास को कम्पनी द्वारा धन के प्रावधान हेतु अनुमोदन।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया को संचालित करने हेतु मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स के श्री देवेश कुमार विशष्ट (एफ सी एस नं. 8488, सी पी नं. 13700), कम्पनी संचिव ('संवीक्षक') को नियुक्त किया है।

सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। कम्पनी ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेत् एन एस डी एल के साथ एक राजीनामा निष्पादित किया है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकें। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को पोस्टल बैलट सूचना में टिप्पणियों में वर्णित किया गया है। सदस्य कृपया यह नोट कर लें कि ई-वोटिंग शुक्रवार, अप्रैल 23, 2021 को पूर्वा. 9.00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और शनिवार, मई 22, 2021 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वोटिंग हेतु एन एस डी एल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को नियोग्य कर दिया जाएगा।

उपरोक्त एम सी ए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलट प्रपत्रों और पूर्व-प्रदत्त व्यावसायिक प्रत्युत्तर लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट सूचना की भौतिक प्रतियां, सदस्यों को नहीं दी जा रही हैं। सदस्यों की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से

सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना अप्रैल 16, 2021 से की जाएगी जो कि कट-ऑफ तिथि है। पोस्टल बैलट सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट <u>www.jubilantingrevia.com</u>, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर और एन एस डी एल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त नहीं होती है वे इसे उपरोक्त वर्णित वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं।

वे सदस्य जिनके पास भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और जिनके ई-मेल पते कम्पनी/उनके सम्बन्धित डिपॉटिजरी पार्टिसिपेंट्स के यहां पंजीकृत नहीं है उनसे आग्रह है कि वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन्ड प्रति और निम्नांकित दस्तावेजों यानी आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या कम्पनी के यहां पंजीकृत अनुसार सदस्य(यों) के आवास प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन्ड प्रति के साथ नाम, पूर्ण पता, फोलियो नम्बर, कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या वर्णित करते हुए सदस्य(यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक पत्र की स्कैन्ड प्रति <u>investors.ingrevia@jubl.com</u> या <u>rta@alankit.com</u> को जल्द से जल्द ईमेल द्वारा भेजकर अपना ईमेल पता का पंजीकरण करा लें। डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपने ईमेल पते अद्यतन

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत होने पर, आप <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर ईमेल के माध्यम से श्री अमित विशाल वरिष्ठ प्रबंधक, एन.एस.डी.एल., ट्रेड वर्ल्ड, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, भारत से या टोल फ्री नं.: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर या <u>rta@alankit.com</u> पर श्री जे. के. सिंगला, वरिष्ठ प्रबंधक, मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055, भारत से या टेलीफोन नं.: +91-11-23541234 या 42541234 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलट का परिणाम सोमवार, मई 24, 2021 को सायं 05.00 बजे निगमित कार्यालय, 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत में घोषित किया जाएगा। संवीक्षक का रिपोर्ट के साथ परिणामों को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय और निगमित कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।

कृते जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड

दीपांजली गुलाटी कम्पनी सचिव एफ सी एस नं.: 5304

## इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम,रामचरित मानस का अर्थ सहित गायन यू-ट्यूब पर लांच हुआ

## कोरोना काल में रामचरित मानस का पाट लाभकारी

#### राजनाथ सिंह बोले लखनऊ **प्रमुख संवाददाता**

देश के रक्षामंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में धर्म और आध्यात्म से लोगों का जुड़ाव औषधि के रूप में काम करेगा। संक्रमितों को सही करने में भी सस्वर रामायण का पाठ वरदान साबित हो

यह बात उन्होंने डॉ. समीर त्रिपाठी के रामचरित मानस के अर्थ सहित गायन को लांच करते हुए कही। इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में



व्हाटसएप के माध्यम से वर्चअल कक्षाएं

ली जाएं।

आयोजित कार्यक्रम में वह वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। यह गायन यू-ट्यूब चैनल मेधज एस्ट्रो पर उपलब्ध है। राजनाथ ने इस प्रयास को कोरोना काल में आस्था जगाने वाला और

सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला बताया है। इस मौके पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी श्री रामचरित मानस के अर्थ सहित गायन को समाज के लिये वर्तमान परिस्थितियों में काफी उपयोगी बताया। कहा कि लोगों का ध्यान नकारात्मक सूचनाओं और खबरों से हटाकर सकारात्कता फैलाने के लिये यह प्रयोग काफी उपयोगी साबित हो सकता है। जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी ने न सिर्फ शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी व्यक्ति और समाज को नकारात्मक रूप से

प्रभावित किया है।

## कोरोना काल में राहत

देगाः द्वारकाशारदापीठाधीश्वर एवं ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि कोरोना काल में सांस्कृतिक जड़ों, धर्म और आत्यात्म से जुड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है।

लोगों को शास्त्रों, वेदों का पाठ पढ़ने का यह उपयुक्त समय है। इसका भरपूर उपयोग कर लोग स्वयं को महामारी के संकट से बचा सकते हैं। साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने का भी यह सुनहरा समय है।

## पीड़ितों ने ऑक्सीजन की मांग की

वाले से मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी पूछ रहे हैं।

दिनांकः 22 अप्रैल. 2021

स्थानः नोएडा